

2. Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B: Every registered person furnishing the return in **FORM GSTR-3B** shall, subject to the provisions of section 49 of the Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as mentioned in column (3) of the said Table, on which he is required to furnish the said return.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt)]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2018

सं. 10/2018-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 269(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि परिषद् की सिफारिश पर ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, संख्या सा.का.नि. 680 (अ), तारीख 28 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 8/2017-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 और सा.का.नि.1262(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं.38/2017-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 13 अक्टूबर, 2017, द्वारा संशोधित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, "31 मार्च 2018" अंकों और शब्द के स्थान पर "30 जून, 2018" अंक और शब्द रखा जाएगा।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी (भाग)]

रुची बिष्ट, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 680(अ), तारीख 28 जून, 2017 द्वारा अधिसूचना संख्या 8/2017-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) और सा.का.नि.1262(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं.38/2017-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 13 अक्टूबर, 2017, द्वारा संशोधित अधिसूचना में प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2018

No. 10/2018 – Central Tax (Rate)

G.S.R. 269(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.8/2017 – Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 680 (E), dated the 28th June, 2017, and amended vide notification No.38/2017- Central Tax (Rate), dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1262 (E), dated the 13th October, 2017, namely:-

In the said notification, for the figures, letters and words “31st day of March, 2018”, the figures, letters and words “30th day of June, 2018” shall be substituted.

[F. No. 349/58/2017-GST (Pt.)]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal notification No.8/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) vide number G.S.R. 680 (E), dated the 28th June, 2017 and amended vide notification No.38/2017- Central Tax (Rate), dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1262 (E), dated the 13th October, 2017.